

@shajahanpurpol

प्रेस नोट: सराहनीय कार्य 08.03.2021

थाना जैतीपुर पुलिस ने किया अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड,

भारी मात्रा में निर्मित/अर्द्धनिर्मित अवैध असलहा व असलहा बनाने के उपकरणों सहित शातिर

अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

श्री एस आनन्द पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध शस्त्र का कारोबार करने वाले क्रियाशील एवं चिन्हित किये गये अपराधियों की गिरफ्तारी एवं अपराध की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत श्री संजीव कुमार बाजपेयी पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशन एवं श्री परमानन्द पाण्डेय क्षेत्राधिकारी तिलहर के पर्यवेक्षण एवं थानाध्यक्ष जैतीपुर के नेतृत्व में थाना जैतीपुर पुलिस को बड़ी सफलता प्राप्त हुई।

इसी क्रम में दिनांक 07/08.03.2021 की रात्रि करीब 01 बजे बजे थाना जैतीपुर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर ग्राम नौगवा गाव के सामने उत्तर की ओर जाने वाले कच्चे रास्ते पर गन्ने के खेत में अभियुक्त नेगपाल पुत्र रामलाल निवासी ग्राम शिवनगर थाना जैतीपुर जनपद शाहजहाँपुर को अवैध असलहा बनाने की फैक्ट्री व अवैध असलहो के साथ गिरफ्तार किया गया। मौके से भारी मात्रा में निर्मित व अर्द्धनिर्मित अवैध असलहा व असलहा बनाने के उपकरण बरामद किये गये। इस सम्बन्ध में थाना जैतीपुर पर मु0अ0स0 67/2021 धारा 3/5/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। अभियुक्त से पूछताछ के दौरान प्रकाश में आये तथ्यों के आधार पर अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

कार्यक्षेत्र

अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है जो पूर्व में भी शस्त्र फैक्ट्री चलाने को लेकर जेल जा चुका है। यह अवैध शस्त्र बनाकर बनाकर आस पास के क्षेत्रों में सप्लाई करता है तथा इसी से अवैध धन अर्जित करता है।

गिरफ्तार अभियुक्त नाम व पता

1-नेगपाल पुत्र रामलाल निवासी ग्राम शिवनगर थाना जैतीपुर जनपद शाहजहाँपुर

बरामदगी का विवरण

1- 01 अदद रायफल देशी 315 बोर 2-दो अदद बन्दूक देशी 12 बोर 3- एक अदद पौनिया देशी 12 बोर
4- 01 अदद देशी तमंचा 12 बोर 5- एक तमंचा देशी 315 बोर 4-एक अदद अर्द्धनिर्मित तमंचा
5- 02 अदद जिंदा कारतूस फैक्ट्री मेड 12 बोर व 01 खोखा कारतूस 315 बोर
6- लोहे का सिकन्जा, साईकिल का रिम, हथौडा, सुम्मी, कोयला, छैनी, लोहा काटने की आरी, बरमा, लोहे के पाइप आदि अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0स0 560/2015 धारा 5/25 आयुद्ध अधिनियम थाना जैतीपुर जनपद शाहजहाँपुर

पंजीकृत अभियोग का विवरण

1. मु0अ0स0 67/2021 धारा 3/5/25 आयुद्ध अधिनियम थाना जैतीपुर जनपद शाहजहाँपुर

गिरफ्तार करने वाली टीम

- 1-थानाध्यक्ष श्री प्रदीप कुमार सहरावत थाना जैतीपुर शाह0पुर
2. उ0नि0 श्री संजीव कुमार
3. उ0नि0 श्री रूखसार खान
4. का0 1074 जगत सिंह
5. का0 2305 प्रशान्त महालवार
6. का0 2157 विशाल अष्टवाल
7. का0 2306 गौरव तोमर